

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, मंगलवार, अग्रस्त 1, 1969/चैत्र 11, 1891

No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1969/CHAITRA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 1st April 1969*

**S.O. 1320.**—Whereas the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the tax payable under the said Act by a dealer having his place of business in the Union Territory of Delhi, on the sales of goods mentioned in the Schedule appended hereto, made by him from such place of business, in the course of inter-State trade or commerce, to any dealer having his place of business in the Kohima and Mokokchung district of the State of Nagaland, shall be calculated at the rate of three per cent of his turnover in respect of such sales, subject to the condition that the selling dealer, shall, on demand, produce before the assessing authority, in respect of every such sale, a certificate duly filled in and signed by the purchasing dealer in the following form, namely:—

#### *Form of certificate*

Certified that the goods mentioned in \*Bill/cash memo/challan No....., dated.....for Rs.....were \*sold/supplied to \*me/us by.....having his place of business at ..... in the Union Territory of Delhi and are required by \*me/us for \*resale/use in \*manufacture/processing of goods for \*sale/use in \*mining/generation or distribution of power/packing of goods for \*sale/resale.

[\*Signature, name and address of the purchasing dealer().]

[\*Strike out the words which are not applicable.]

## SCHEDULE

Any goods to the sale of which sub-section (1) or sub-section (2A) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), does not apply, and which are intended by the purchasing dealer for—

- (a) resale; or
- (b) use in manufacture or processing of goods for sale; or
- (c) use in mining; or
- (d) use in the generation or distribution of electricity or any other form of power; or
- (e) the packing of goods for sale or resale.

[No. F.16/37/68-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

## गृह-मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1969

**एस० नो० 1321.**—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है ;

अतएव, अब केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निवेश देती है कि ऐसे ब्यौहारी द्वारा जिसके कारबार का स्थान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में है, यहाँ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित ऐसे माल के विक्रय पर, जो उसके द्वारा अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कारबार के ऐसे स्थान से किसी ऐसे ब्यौहारी को किया गया हो जिसके कारबार का स्थान नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोक्चुंग जिलों में है, उक्त अधिनियम के अधीन सदेव कर ऐसे विक्रयों की बाबत उसके आवर्त के तीन प्रतिशत की दर से, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए, संगणित किया जाएगा कि विक्रय करने वाला ब्यौहारी ऐसे प्रत्येक विक्रय की बाबत एक प्रमाण-पत्र जो क्रेता ब्यौहारी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में जो सस्यक रूप से भरा और हस्ताक्षरित किया गया हो, मांग की जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा अर्थात्

## प्रमाण-पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि \*बिल/कैशमेमों/चालान सं० ..... तारीख ..... \*में वर्णित ..... रुपये का माल ..... द्वारा, जिसके कारबार का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में ..... में है \*मुझे/हमें\* बेचा/ प्रदाय किया गया था और वह माल पुनः विक्रय/विक्रय के लिए भास के \*विनिर्माण/अभिसंस्करण में प्रयोग के लिए/\*खनन में प्रयोग के लिए/विद्युत् शक्ति के उत्पादन या वितरण में प्रयोग के लिए/\* विक्रय/ पुनः विक्रय के लिए माल की पैकिंग के लिए \* मेरे/हमारे द्वारा अपेक्षित है ।

(क्रेता ब्यौहारी/ब्यौहारियों के  
हस्ताक्षर, नाम और पता)

(\*जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए)

### प्रत्युक्ति

ऐसा कोई माल जिसके विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2-क) लागू नहीं होती और जो—

- (क) पुनः विक्रय के लिए; अथवा
- (ख) विद्युत के लिए माल के विनिर्माण या अभिसंस्करण में प्रयोग के लिए; अथवा
- (ग) वाहन के प्रयोग के लिए; अथवा
- (घ) बिजली या विद्युत शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में प्रयोग के लिए; अथवा
- (ङ) विक्रय या पुनः विक्रय के लिए माल की पैकिंग के लिए क्रेता व्यौहारी द्वारा आशचित है।

[सं० फा० 16/37/68 यू० टी० एल०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

## CABINET SECRETARIAT

### ERRATA

In the Cabinet Secretariat (Department of Cabinet Affairs) two Notifications bearing S.O. Nos. 730 and 731, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 19th February, 1969, the following Corrections are to be made:—

#### S.O. 730

##### Page 224

- (i) Under "A. Department of Petroleum",—  
in entry 10, second line, for "rojects" read "projects".
- (ii) Under "B. Department of Chemicals",—  
in entry 1 for "lertilizers" read "Fertilizers".

##### Page 225

- Under "C. Department of Mines and Metals",—  
in entry 13, second line, for the word 'Ministry.' read 'Ministry.';

#### S.O. 731

##### Page 226

- in entry 7, insert "," after the word "Works" and before the word "Housing".

##### Page 227

- Under "A. Department of Foreign Trade",—  
in entry 3, for the word 'trader', read 'traders'.

##### Page 229

- Under "A. Department of Health",—  
in entry 1 (iii), for the word 'Union', read 'Unit'.

**Page 232**

Under "C. Department of Works, Housing and Urban Development",—

- (i) in entry 1, first line, *insert* "," after the word 'Naval';
- (ii) in entry 5, third line, *insert* "," after the word "Nagpur".

**Page 233**

Under "C. Department of Works, Housing and Urban Development",—

in entry 25, second line *for* the word 'Department.' *read* 'Department.';

**Page 234**

Under "B. Department of Internal Trade",—

in entry 10, third line, *for* the word 'Bombay.'" *read* 'Bombay.';